

जनवरी माह में दिल्ली मौसम ( सफदरजंग )

सभी बार रिकॉर्ड(All-time record)										सामान्य मौसम										औसत (1991- 2020)																	
कुल वर्षा (MM)					तापमान (In °C)					प्रातः काल में कुहासा/कुहरा होगा। पश्चिमी वक्षोभ के प्रभाव से कभी-कभी बादल छाने तथा वर्षा होती है। उसके बाद सर्द दिन/ शीतलहर होती है।										DATES	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31										
Wettest	Driest	in 24 hrs			Max.	Min.	MAX.	19.3	19.0											19.9	19.6	20.3	22.1	22.3													
173.2	0.0	116.8				-0.6	MIN.	6.9	6.9											7.4	7.6	7.5	8.4	8.4													
In		28				16	Observation taken between 0830 IST of previous day and 0830 IST of current day.										Aver. Temp./ Tot RF	Cold Day Days	Cold Wave days	Rain Days																	
1885		1885				1935																															
Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
	Max	15.9																																			
	Min	10.1																																			
	R/F	0.0																																			
	Wx																																				
2023	Max	19.7	21.1	17.3	16.1	16.5	16.5	16.6	16.7	18.2	18.6	18.7	20.2	21.6	21.5	18.4	17.8	18.7	19.7	19.6	22.6	23.1	23.3	24.0	25.9	21.6	19.3	17.3	21.2	23.8	17.2	18.9	19.7	01			
	Min	5.5	7.6	8.5	4.4	3.0	4.0	2.2	1.9	3.8	6.4	5.9	9.3	9.8	10.2	4.7	1.4	2.4	2.6	5.6	10.6	6.2	8.2	7.6	12.3	10.6	12.8	5.8	6.1	6.4	10.2	9.9	6.6		08		
	R/F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	tr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	20.4		01	
	Wx	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
2022	Max	19.4	20.2	20.4	21.5	23.2	15.7	21.1	20.3	16.4	15.0	18.1	18.3	18.1	16.7	15.4	14.8	17.2	16.1	15.4	18.1	19.1	19.6	14.7	14.9	14.8	12.1	16.4	19.1	20.6	22.4	22.2	18.0				
	Min	04.2	05.0	05.4	8.5	10.9	11.7	13.5	15.2	13.8	09.6	06.5	08.2	05.8	06.0	06.1	08.1	08.7	08.5	07.4	09.8	07.6	11.5	10.5	08.0	06.2	05.8	06.3	06.4	05.4	07.5	06.4	08.2				
	R/F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	9.1	0.0	40.6	8.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	07		06
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2021	Max	17.4	19.2	19.5	15.8	22.6	20.8	21.3	19.9	16.9	19.7	16.2	17.5	17.6	18.5	19.2	20.8	19.1	15.3	19.6	20.4	18.3	22.8	18.6	20.4	15.0	18.4	20.4	21.5	19.4	20.8	21.5	19.2				
	Min	1.1	7.0	9.9	11.4	13.2	13.0	14.4	9.6	10.8	7.8	7.0	4.3	3.2	2.0	6.4	6.6	5.7	9.0	6.9	7.8	7.4	4.2	8.0	8.8	7.4	2.1	5.4	3.8	4.0	5.4	3.1	7.0				
	R/F	0.0	0.0	25.1	14.8	4.7	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6		05	
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	02	06
2020	Max	14.7	20.5	23.0	23.5	21.6	21.2	19.1	19.0	14.5	15.0	17.5	19.9	23.4	19.9	17.7	19.9	16.4	17.7	17.7	16.7	16.1	20.2	17.9	20.2	21.2	21.4	22.7	23.0	22.2	20.6	20.2	19.5				
	Min	2.4	4.6	7.6	8.0	7.0	9.9	11.6	12.5	8.4	5.3	5.8	7.1	8.0	10.5	6.4	9.5	11.3	8.4	7.0	8.3	9.2	7.1	9.0	8.2	4.8	6.9	8.5	10.5	10.2	8.0	7.2	8.0				
	R/F	0	0	0	0	0	0	TR	6.0	10.8	0	0	0	0	0.8	0	TR	16.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	8.0	0	0	48.1		06		
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	03	01
2019	Max	22	23	23	21	18	21	20	20	20	21	21	22	23	23	19	19	21	22	21	26	28.7	23	19	20	22	19	19	19	19	21	21	21.2				
	Min	04	07	07	07	05	09	07	07	08	06	05	07	09	08	06	05	04	05	06	07	11	12.5	08	10	10	06	05	05	05	05	08	6.9				
	R/F	0	0	0	0	0	4.3	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.1		05	
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	00	01
2018	Max	24	20	18	18	20	18	21	21	22	22	23	23	24	23	25	24	25	23	27.7	25	23	26	25	17	19	18	19	21	23	24	27	22.2				
	Min	06	08	07	05	07	4.2	06	05	4.2	07	08	08	05	06	06	09	06	07	07	08	05	06	09	07	09	07	08	06	07	10	10	7.0				
	R/F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tr	4.4	0	0	0	0	0	0	0	4.4		02		
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	00	00	
2017	Max	20	23	24	24	25	25	24	16	20	19	18	17	18	19	19	24	19	16	19	21	21	20	24	25	25.6	25	18	20	19	21	23	21.1				

	Min	09	09	09	09	10	11	13	12	09	05	04	03	04	3.2	09	09	06	04	06	06	07	08	10	10	13	16	13	11	11	09	10	8.7				
	R/F	0	0	0	0	0	0	3.4	tr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	30.3	0	0	0	0	33.9			03	
	Wx	*	*	*	*	*	*	℞	*	*	*	*	*	*	*	℞	*	*	*	*	*	*	*	*	*	℞	℞	*	*	*	*		03	03			
2016	Max	25	24	23	23	23	27	25	25	21	22	24	25	25	23	19	16	17	19	19	16	15	17	18	22	16	19	21	24	24	25	27.2	21.6				
	Min	07	08	08	08	11	12	11	12	10	09	09	09	12	14	10	11	10	06	09	09	07	4.2	05	07	06	07	09	09	11	13	14	09.2				
	R/F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Tr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	00
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		04
2015	Max	19	21.6	16	17	19	21	18	13	15	16	18	16	16	18	15	19	21	21	22	21	18	17	13	20	17	18	16	18	18	19	20	17.9				
	Min	09	10	14	12	08	09	06	07	07	07	07	06	04	07	06	08	08	06	09	10	09	10	11	10	09	08	10	08	05	06	07	8.5				
	R/F	0.0	5.4	7.0	tr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	tr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.5	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1		07
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		02
2014	Max	17	18	18	20	19	19	18	20	21	18	20	18	21	22	22	17	18	13	16	21	22	15	18	20	18	14	20	24.0	24.0	22	21	19.1				
	Min	02	05	05	06	08	07	06	4.4	07	05	06	06	07	08	10	09	08	11	09	09	10	12	13	11	09	10	10	09	10	10	10	8.4				
	R/F	TR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.8	1.8	0.0	TR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8		03	
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	℞	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		03
2013	Max	13	15	10	13	16	13	12	13	15	21	21	23	25.2	23	21	23	24	21	16	19	18	20	20	20	21	21	21	22	22	23	24	19.0				
	Min	04	05	04	03	03	1.9	02	03	04	06	08	08	09	11	07	08	10	11	07	06	06	05	04	06	06	06	07	07	07	06	07	6.1				
	R/F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5		02
	Wx	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	℞	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		02
2012	Max	23	19	20	21	22	19	17	18	18	18	18	19	19	20	23	25.6	20	14	15	18	15	18	18	23	22	21	21	21	22	21	22	19.7				
	Min	11	12	8	8	9	12	13	12	8	5	5	5	5	7	9	11	9	6	5	5	5	7	6	7	9	9	8	5	5	7	4.4	7.5				
	R/F	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9		05
	Wx	*	*	*	*	*	℞	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		00

Legend • वर्षा \* कोहरा tr ट्रेस ℞ गर्जन □ कोई महत्वपूर्ण मौसम नहीं संपर्क 24629096